



National Stock Exchange of India Ltd
Listing Department,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai- 400051
Scrip Code – RELAXO

Subject: Newspaper Advertisement for 38<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the company and book closure for the purpose of AGM and Dividend.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith Newspaper Advertisement regarding intimation of 38th Annual General Meeting of the company to be held on Thursday, August 25, 2022 at 10:30 AM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") and book closure for the purpose of AGM and dividend. published in Financial Express (Delhi - English Edition) and Jansatta (Delhi - Hindi Edition), on July 30, 2022. A copy of AGM notice along with Addendum notice has been uploaded the on website of the company https://www.relaxofootwear.com/downloads.

The same is for your information and record.

Thanking You

For Relaxo Footwears Limited

Vikas Kumar Tak

**Company Secretary and Compliance Officer** 

Membership No.: FCS 6618

Encl. as above

## **RELAXO FOOTWEARS LIMITED**

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700 Fax: 46800 692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com
CIN L74899DL1984PLC019097



**FINANCIAL EXPRESS** 

**PROPERTY POSSESSED** 

Property 1: Residential House No.55, Municipa

Corporation No. 32D/AB/55 bearing at Khasra

No.117 situated at Amita Bihar, Mauza Ghatwasar

Mustkil, Hari Parwat ward, Kamla Nagar, Tehsil and

District Agra (measuring area 83.61 Sq.Mtrs)

which is bounded as under :- East - House No.56

of Shree Kishan Sharma, West - House No.54 of

and Park, South - Other's Land

Sudhendra Kumar Jain, North – Road 9' Mtrs wide

Property No.2: House at Plot No.34 total are

admeasuring 123 Sq.Mtrs Parag Enclave, Yamuna

Vihar Colony, Mauza Ghatwasan, Hari Parwat

ward, Tehsil and District Agra, Uttar Pradesh which

is bounded as under :- East - Vacant Plot area

West - Rasta - 4.26 Mtrs wide , North - Land of

Real Construction, South - Rasta - 18.28 Mtrs

Nagar Nigam No.39/27 measuring 362.03 Sq.Mtr

situated at Old Idgah Colony (Naga Kanti Colony)

Rakabganj Ward, Agra. Boundaries: East: Part of

Property No.39/27, West: Property Sardar Tirath

Singh, North: Property Laxmi Narayan Upadhyay

Property 2: Commercial Shop over the Prop

No.30/48A, on Semi Basement Floor situated a

Kumhar Para, Chhipitola, Rakabganj Ward, Tehs

& Distt. Agra (Measuring area 80.25 Sq. Mtrs.

Boundaries: East – Property of Satish Change

West - Road 50' wide & Exit, North - Property

Baijnath Jain, South - Part of Property.

South: Road wide 6.09 Mts.

Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600 001 Branch Office: Plot No.5, Padam Plaza, H-1 & 2, 3rd Floor, Sector 16 B, Avas Vikas Colony,

Under Rule 8 (1)

the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act

and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 9 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in

Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that

the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the

respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule

The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [ ${ t E}$ 

below and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for ar

Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding

Sikandra, Yojna, Uttar Pradesh 282007

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of

amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges.

including all costs, charges and expenses before notification of sale.

NAME AND ADDRESS OF BORROWE

Loan A/c No. X0HEAHE00001464814,

At: 85/A/4, MENKA PLACE, KAMLA NAGAR,

MENKA PLACE, AGRA, UTTAR PRADESH -

At: Agarwal House 34 Annu Enclave, Near

Braj Dham Phase 2, Agra, Uttar Pradesh -

Manoharpur Dayal Bagh, Agra, Uttar Prades

At: 85/A/4 MENKA PALACE, KAMLA NAGAR

At: 34, ANNOO ENCLAVE, MANOHARPUR

At: I-8 Karmyogi Enclave, Mauza Ghatwasan

At: 10 Janakpuri Puri Phase-2, Manoharpur Dayal Bagh, Agra, Uttar Pradesh-282005.

At:119 Ground Floor, Block No.36/2/4, Sanja

At: 10 Janakpuri Puri Phase-2, Manoharpur Dayal Bagh, Agra, Uttar Pradesh-282005.

At: 34, ANNU ENCLAVE KARMYOGI, KAMLA NAGAR, AGRA UTTAR PRADESH-282004.

1 to 4 At: 35/138 Netaji Nagar, (Old Idgah

At: 30/48A, KUMHAR PARA, CHHIPITOLA,

Colony)Namner Agra, Uttar Pradesh - 282001

12. SHRI SURESH CHAND SINGHAL

Palace, Agra-up, Uttar Pradesh-282002.

At: 34 KARAM YOGI ENCLAVE, AGRA

**3.SUNITA ANIL KUMAR AGRAWAL** 

3 & 4 At: 10 Janakpuri Puri Phase-2,

4. ANIL KUMAR AGARWAL

**5. LAXMI SANJEEV KUMAR** 

6. RAJESHWARI DEVI

7. ASHISH SINGHAL

9. MANISH SINGHAL

UTTAR PRADESH-282006.

10. ASHISH SINGHAL

11. RAJESHWARI DEVI

SHIKSHAN SANSTHAN

X0HEAHE00003123354 and

HE02AHE00000004255)

3. AKHILESH KUMAR JAIN,

5. M/S MANTRIJI SOLAR

NAUJHIL, UTTAR PRADESH

Date: 30/07/2022 Place AGRA

1. GOLDY JAIN,

2. POOJA JAIN,

4. REENA JAIN

**EQUIPMENT** 

RELAXO

8. SUNITA

AGRA, UTTAR PRADESH-282004.

AGRA, UTTAR PRADESH-282004

Agra, Uttar Pradesh-282005.

2. SHRI SURESH CHAND SINGHAL

X0HEAHE00002432028 and

1. SANJEEV KUMAR AGARWAL

HE02AHE00000003685)

SHIKSHAN SANSTHAN

& LOAN ACCOUNT NUMBER

# Startups evince increased

**TUSHAR GOENKA** 

THE MEDICALTOURISM space

Under the exclusive model, startups like Meditourz enter into an agreement with hospitals to bring patients from a particular country and that region is reserved only for them. In the case of a per patient revenue model, startups like Healthtrip earn a commission from the hospitals on every patient they bring in – more the number, higher the earnings. Danish Ahmed, co-founder

a per patient model, said his about \$6 million in 2019 and is



on track to close financial year across the world," Ahmed said.

Healthtrip, formerly known as Hospals, raised about \$3.5 million from 9Unicorns and CRED's Kunal Shah, among others,in January 2022, Tracxn data showed. The company is already working on its Series Around to raise about \$5 million to fund its growth plans, Ahmed said.

Companies, which operate

the perpatient model, said their take rate or commissions fell anywhere between 20% and 25%, depending on the treatment and services availed, founders said. Under the exclusive agreement model, the commissions were higher — at about 40%. Aashnee Gajaria, cofounder of Meditourz, said, "We spend anywhere between \$1,000 to acquire a customer and earn about \$1,400 on an average per patient. The average ticket size stood at about \$7,000 for the space we deal in

- the regenerative treatment." However, the high customer acquisition cost (CAC) hasn't proved to be a deterrent mainly because of the potential return on investments (ROI) the busigenerates, several founders explained. They said that the CACs remain broadly similar irrespective of the revenue model. Interestingly, the medical tourism firms don't charge patients. Hospitals pay commissions to these startups and companies as they bring along a huge inflow of patients which wouldn't have otherwise been the case.

Healthtrip, Meditourz, Plan-MyMedicalTrip, MedMonks, TreatGo, PSTakeCare, Oxa Health, Vaidam and Lyfboat are a few players in the space, as per Tracxn data. In India, there are only about 59 active startups in the industry currently.

Globally, 178 new-age companies dabble in this space.

Between 2017 and 2020, patients from Bangladesh have remained the top visitors to India — making up for 54.3% of the total inflow. Iraq, Afghanistan and Maldives followed next with 9.1%, 8.9% and 6.1%, respectively, according to the latest available government data.



# PERSONAL

I.Harish Kumar Gadi s/o-Bhim Sain Gadi R/o 52-A, Block-C4D,C-Block, Janakpuri, Delhi-110058, have changed my name to Harish Kumar, permanently.

0040624703-8

I,ABDUL BASIT KHAN,S/O ZUL-FIQAR AHMED, H.NO-2218, Shankar-street, Kali Masjid, Sita Ram-bazar, Delhi -110006. Have Changed My Name ABDUL BASIT, permanently.

0040624703-9

**It** is for general information that I,FAKRUDDIN Ali,S/o-Sahabuddin, R/o. House. No. 35, Gali .No.3,Om-Nagar,Meethapur-Extn Badarpur, Delhi-110044, declare that name of my-wife has been wrongly-written as PARVIN BEGUM in my minor-daughter TAMMANA, aged-14-years in her Date.Of.Birth

Certificate.No.MCDOLIR-0122-1606245178, and name of mine has been wrongly-written as FAKHARUDDIN in her Schoolrecords. The actual-name of mine and my-wife are FAKHARUDDIN ALI and a SAMA PRAVEEN. respectively, which may be amendedaccordingly.

0040624739-9

# LOST & FOUND

It is notified for the information that my original marksheet of 12th Examination year 2012 Roll no- 0267511 issued by Uttar Pradesh board has been lost. If found contact: +919953665589, VISHAL

0040624681-1

PUBLIC NOTICE

& Ms. Naha Gautam (hereinafter referred to as the said Mortgagers / Purchasers) have agreen o create mortgage in respect of the Property Authort Housing Finance Company Ltd. B-2, The Seller Mr. Ankur Awasthi S/o Mr. Kripa Shankar Awasthi has lost/misplaced the riginal Sale Deed executed/registered or 29.01.1997 by Mr. Nand Kishor S/o Mr. Attar tuated at Village Noor Nagar Residenti Colony Tehsil & Distr. Ghaziabad (U.P.). Any person having any claim against or ossession, lease, sub-lease, tenancy, license owever are hereby requested to notify the focumentary evidence at the address such person will be considered to have been valved and/or abandoned any my client shall oceed with the disbursement of loan and eation of mortgage on the schedule property The Schedule showing the description

d, falling under Khasra No. 738 situated at Alliage Noor Nagar Residential Colony Tehsil & Date: 28.07.2022

of the property

S.C. Varshney (MHFL Panel Advocate) R-14/178, Raj Nagar, Ghazlabad-201002

PUBLIC NOTICE

S/o Bhola Ram R/o H.No- A-27

Pansheel vihar, Malviya Nagar, New

Delhi -110017, have severe all his

son namely Manish Manchanda

and Disowned him from all his

moveable and immovable

properties. In future anybody

dealing with him shall be doing so

at his own cost, my client and his

family members shall not be

Ch. No-107, Saket Court, Delhi

Kamal Kumar (Advocate)

responsible for the same.

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector -3, Rohini, Delhi - 110085. Phones: 91-11-46800600, 46800700. Fax No: 91-11-46800692, E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com CIN No:- L74899DL1984PLC019097

NOTICE OF THE 38<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Relaxo Footwears Limited (the "Company") will be held on Thursday, 25th day of August, 2022 at 10:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the notice of the AGM dated May 11, 2022 in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), rules made thereunder and read with General Circular no. 3/2022 dated May 5, 2022 read with General circular no. 02/2021 dated January 13, 2021 read with General circular no. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and General circular no. 14/2020 dated April 8, 2020, issued by Ministry of Corporate Affairs and circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 read with SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "circulars").

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

In compliance with the aforesaid circulars, the Notice convening the 38" AGM along with Annual Report for the Financial Year 2021-22 which inter alia comprises of Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year ended March 31, 2022, together with the Reports of Board of Directors and Auditors thereon, has been sent on July 28, 2022 through electronic mode to the Members whose e-mail addresses were registered with the Depository Participants / Kfin Technologies Limited ("Kfin"), Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company. The requirement of sending physical copies of the Notice of AGM has been relaxed by the authorities vide the above-mentioned circulars.

The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.relaxofootwear.com and on the websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, also on the website of RTA at https://evoting.kfintech.com. Also, the attendance of the Members (through members logins) attending the AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The facility for providing proxy is not available since the AGM is conducted through VC/OAVM.

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at https://emeetings.KFintech.com by using their e-voting login credentials. The Members can join the AGM 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with aforesaid circulars, the Company is providing to its Members a facility to exercise their right to vote on businesses as set out in notice of AGM by electronic means ("remote e-voting"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("InstaPoll") and Members attending the Meeting will be able to vote at the AGM through InstaPoll. The Company has engaged the services of Kfin to provide remote e-voting and InstaPoll facilities for the AGM. The detailed instructions for remote e-voting/InstaPoll are given in the notice of the AGM, dated May 11, 2022.

Members are requested to note the following:

Date: July 29, 2022

Place: Delhi

- a) The remote e-voting will commence on Monday, August 22, 2022 at 9:00 Hours (IST) and will end on Wednesday, August 24, 2022 at 17:00 Hours (IST). The e-voting module shall be disabled by Kfin for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed
- b) The voting rights of the Members (through remote e-voting / InstaPoll) shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, August 18, 2022 ("cut-off date"). A person whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the Kfin / Depository Participants as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / InstaPoll at the AGM, as the case may be. A person who is not a Member as on the cut-off date, i.e. Thursday, August 18, 2022 should treat the notice of the AGM for information purpose only
- c) Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. Thursday, August 18, 2022, may obtain the login ld and password by sending a request at evoting@kfintech.com or contact no. 040 - 6716 2222 or call Kfin toll free No. 1800-3454-001 or to the Company at cs@relaxofootwear.com. The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the notice of the AGM dated May 11, 2022. However, if a Member is already registered with Kfin for remote e-voting then he/she can use the existing login Id and password for login.
- d) The Company is providing e-voting during the AGM i.e. InstaPoll which is integrated part of VC/OAVM platform and no separate login is required for the same. Facility to cast vote through InstaPoll will be made available on Video Conferencing screen and will be activated once the InstaPoll is announced at the AGM
- e) A Member can opt for only single mode of voting i.e. through Remote e-voting or InstaPoll. If a Member casts votes by both modes then voting done through Remote e-voting shall prevail and InstaPoll shall be treated as invalid. The Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.
- f) Members are requested to register their email addresses in respect of shares held in electronic form with their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by clicking at https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemailreg aspx or by submitting physical copy of Form ISR-1 to the RTA along with relevant documents at below mentioned address at KFin Technologies Limited, Unit: Relaxo Footwears Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032, India or by sending email to einward.ris@kfintech.com.
- g) Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves by logging on to https://emeetings.Kfintech.com and clicking on the 'Speaker Registration' option available on the screen after log in. The Speaker Registration will remain open from Saturday, August 20, 2022 (09:00 Hours IST) to Monday, August 22, 2022 (17:00 Hours IST). Only those Members who will register themselves as speaker will be allowed to express their views or ask questions at the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers, depending upon availability of time as appropriate for smooth conduct of the AGM.
- Mr. Baldev Singh Kashtwal (FCS No. 3616, C.P. No. 3169), a Practicing Company Secretary, has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and InstaPoll process in a fair and transparent

The results of the remote e-voting and InstaPoll at the AGM shall be declared not later than 2 (two) working days from the conclusion of the AGM. The results of the voting along with the Scrutinizer's Report, will be announced by the Managing Director or any other Director / person of the Company duly authorised by the Board, on or before Monday, August 29, 2022 at the registered office and will also be displayed on the website of the Company at www.relaxofootwear.com and on the websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, also on the website of RTA at https://evoting.kfintech.com

For any grievances/queries/clarifications relating to voting by electronic means and attending AGM through VC/OAVM, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions ("FAQs") for shareholders' and 'e-voting/VC/OAVM user manual for shareholders'. available at the download section of https://evoting.kfintech.com and / or Mr. Rajkumar Kale, Manager- Corporate Registry, Unit: Relaxo Footwears Limited, Kfin Technologies Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at evoting@kfintech.com or contact no. 040 - 6716 2222 or call Kfin's toll free No. 1800-3454-001 for any further clarifications. The Members of the Company can also contact Mr. Vikas Kumar Tak, Company Secretary, Relaxo Footwears Limited, Aggarwal City Square, Plot No.10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi- 110085, contact No: 011 - 46800600 and may write an e-mail to cs@relaxofootwear.com.

Book Closure: Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rules framed thereunder and Regulation 42 of Listing Regulations, the register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Friday, August 19, 2022 to Wednesday, August 24, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 38th AGM and payment of final dividend for the Financial Year 2021-22, if any, declared by the Members.

New Delhi

By order of the Board For Relaxo Footwears Limited Vikas Kumar Tak Company Secretary

# interest in medical tourism

Bengaluru, July 29

seems to be garnering increased interest from several startup founders. New-age companies now offer end-to-end help to patients visiting India from other countries for treatment and surgeries. Such firms either earn on a perpatient basis orvia an exclusive agreement.

at Healthtrip, which operates on company was clocking an annual recurring revenue (ARR) of

2023 at an ARR of roughly \$20 million.That number would more than double to reach roughly \$50 million in FY24, he said, underscoring the potential in the industry. "We are currently bringing about 3,000 patients per month and looking to scale that up to 9,000 every month as we close this fiscal. Last year, we were serving just about 300 patients, but that number was also low because of the restrictions the pandemic brought about.There is great demand for Indian medical services from

India must step up its trade engagement with neighbours

country beyond items like

dates. Due to bilateral frictions,

India's trade with Pakistan

dwindled to \$516 million in

FY22 while our two-way trade

with Bangladesh is 35-times

unfinished agenda of South

Asian integration without Pak-

istan. BIMSTEC might be

SAARCwithout Pakistan. How-

ever, despite the chill in the

relationship, there are interde-

pendencies between India and

Pakistan that must be seized

huge loss in potential opportu-

nities, contrary to economic

theorywhich states that neigh-

Otherwise there will be a

India cannot address the

larger at \$18 billion.

on the trade front.

New Delhi, July 29

**ATATIME** adverse headwinds are buffeting global trade, India must step up its



engagement with the neigh-

bourhood. South Asia has unfortunately been a diminishing priority focus for India, accounting for \$40 billion or 3.8% of its global trade in FY22. In sharp contrast, China has notched up 1.6-times larger trade volumes of \$62 billion in 2021 in the region according to UN trade statistics. That the dragon trades more with Bangladesh, Sri Lanka and of course Pakistan is a painful reminder to India of its failure to deepen regional integration. But there is a vast upside potential in this regard as trade within South Asia is one of the lowest in the world.

India's diminishing interest, if not influence, in the region is a consequence in large part due to its tensions with Pakistan. Islamabad has for long denied mostfavoured-nation status to India's goods. India, too, withdrew MFN status to Pakistan in February 2019 after the Pulwama terror attacks. MFN status ensures non-discriminatory trade between partner countries. Due to its longstanding problems with Pakistan, India has increasingly preferred regional groupings like BIMSTEC than SAARC.

Most neighbours also resent India's dominance, which has only deepened as they have registered huge trade deficits totalling \$29 billion in FY22.

India must engage more strongly with South Asia as most nations are facing balance of payments problems increase its imports from that with reduced foreign exchange buffers to purchase essential imports like food, fuel and other items.

As many as four of them have approached the IMF for assistance, the latest being Bangladesh to cope with the mounting pressure on their economies. India has so far extended \$3.5 billion to crisisridden Sri Lanka. As Nepal has restricted non-essential imports, India's exports have declined by 13.2% during April-May this fiscal. Generous lines of credit – or soft loans provided on concessional interest rates-enable neighbours to meet their require-

India has so far extended 37 lines of credit (LoCs) worth \$14.27 billion covering 162 development pro-

jects to five South Asian neighbours. Nepal is getting the maximum number of LoCs, followed by

Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives. These projects are mostly for building roads, bridges, waterways etc like the Greater Male Connectivity, water and sewerage and Addu development projects in the Maldives.

The most recent traderelated LoCs are only for Sri Lanka to access fuel and fertiliser supplies. There is a warrant to step up similar assistance to others as well so that they can be supplied with essential goods, including food and fuel, from India.

In this regard, the recent uptick in trade with Pakistan is definitely a favourable augury. Despite Islamabad's ban on trade with India, it more than doubled its imports during April-May this fiscal from India of sugar and sugar confectionery, organic chemicals and pharma products. Pakistan like many other neighbours is short of foreign exchange for importing essentials. There is no reason why India cannot significantly

bouring countries often tend to trade more with each other. Economists use gravity ANALYSIS

models, potential trade approaches and other

techniques to estimate trade possibilities. According to these models, two-way Indo-Pak trade has been pegged at a whopping \$37 billion according to the World Bank and the Delhi-based think-tank ICRIER although the political-economy suggests a more dismal prospect!

region, India must follow up with unilateral trade liberalisation that ensures greater market access for the goods of its neighbours. Doing so will blunt the edge of some of their resentment of only registering massive trade deficits as they begin to acquire a greater stake in the opportunities provided by India's fast-growing economy. The alacrity with which India is inking free trade agreements with UAE, Australia and major developed nations in the coming months must also extend to FTAs with Bangladesh and other neighbours. To be sure, India is belatedly defending its fastdiminishing sphere of influence in South Asia by improving connectivity through road, rail and waterways with Bangladesh and Nepal that will boost cross-border commerce manifold. Settlement of trade transactions in the currencies of trading partners would also be a gamechanger as many neighbours are desperately short of foreign exchange.Togetherwithlines of credit and other assistance, all of this could clear the decks for India to trade more with neighbours than it is currently doing.

(The writer is an economics and business commentator based in New Delhi. His views are personal)

# KDDL LIMITED (CIN: L33302HP1981PLC008123)

Regd. Office: Plot No. 3, Sector - III, Parwanoo, Distt. Solan (H.P.) - 173220 Tel.: +91 172 2548223 / 24 Fax: +91 172 2548302 Website: www.kddl.com ; Email id: investor.complaints@kddl.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE, 2022

S.	Particulars (Refer notes below)	Standalone			Consolidated			
No.			Corresponding Quarter ended 30 June, 2021	Year ended 31 March, 2022	Quarter ended 30 June, 2022	Corresponding Quarter ended 30 June, 2021	Year ended 31 March, 2022	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total income from operations	8131	4757	22347	25043	14474	83158	
2	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	2257	390	2650	2549	423	5228	
3	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	2257	390	2650	2549	423	5228	
4	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	1852	275	2060	1807	282	3715	
5	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1852	275	2070	1806	322	3784	
6	Paid-up equity share capital (Face value in Rs 10 per share)	1274	1274	1274	1274	1274	1274	
7	Reserve (excluding revaluation reserves)	-	-	20310	-	-	23878	
8	Earnings per share (of Rs 10/- each) (not annualized): (a) Basic (Rs) (b) Diluted (Rs)	14.54 14.54	2.23 2.23	16.31 16.31	10.36 10.36	2.10 2.10	25.36 25.36	

1. The above Unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 28 July 2022. The Unaudited financial results for the current quarter ended 30

Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,. The full format of the Unaudited quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nse.india.com and the company's website www.kddi.com

> Yashovardhan Saboo (Chairman and Managing Director)

# Lighthouse in talks to raise \$400-m fund

M SRIRAM Mumbai, July 29

LIGHTHOUSE FUNDS IS in talks to raise \$400 million for a new fund, a senior executive told Reuters, in what will be the biggest fundraising by the private equity firm that is targeting fast-growing consumer brands in the country.

Lighthouse has raised more than \$450 million over the years and has invested in Indian companies that include popular online beauty retailer Nykaa and ethnic apparel and home accessories brand Fabindia. Lighthouse is in talks with potential investors to raise its fourth fund, a partner at the private equity fund, Mukund Krishnaswami, told Reuters in an email. The latest fund will be Lighthouse's largest so far, after

financialexp.epap.in

its first \$100-million fundraising in 2009, followed by \$135 million and \$230 million in two funds in 2015 and 2019, respectively."We are seeing good interest, and are hopeful that the strength of the portfolio and performance of Funds II and III are good tailwinds for these discussions," Krishnaswami said, declining to name the investors the fund was in talks with. A person directly involved in the discussions said the new Lighthouse fund is expected to close later this year.

Some existing investors will increase their exposure in the upcoming fund, while Lighthouse will also tap new investors, added the source, who declined to be named due to the private nature of discus--REUTERS

June 2022 have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company. The unmodified review report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE and National Stock Exchange. The above is the extract of the detailed format of the Unaudited quarterly financial Results filed with the Stock

For and on the behalf of Board of Directors

Place : New Delhi

Date : 28 July, 2022

केल शस्त्र केंद्र, पूर्वी दिल्ली, पॉकेट—ई, मयूर विहार, फेज—।। , दिल्ली—110091 ई-मेल: cs8075@pnb.co.in' फोन नंबर (कार्या.): 011- 22779758 कब्जा—सूचना [ | नयम—४(१) ]

चूकि,अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण आर पुननिमाण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (इसके बाद "उक्त आधीनयम" के रूप में संदर्भित) के तहत पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल शस्त्र केंद्र पूर्वी दिल्ली (पूर्व में एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच के रूप में जाना जाता था), सीएससी, पहली मंजिल, पॉकेट—ई, मयुर विहार, फेज—II, दिल्ली—110091 के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.04.2022 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें 1) श्री सतवीर सिंह पुत्र लखी राम पताः हाउस नंबर 20, एमसीडी डिस्पेंसरी और पीओ महिपालपुर के पास, वसंत विहार, नई दिल्ली—110037 और 2) श्रीमती मीना नानीवाल पत्नी स्वर्गीय धर्मबीर (गारंटर), पताः 642, वीर बाजार गली, ओल्ड बॉयज प्राइमरी स्कूल के पास, कापसहेड़ा गांव, नई दिल्ली–110037 से खाता संख्याः 420000NC000301742 के नोटिस में उल्लिखित राशि रु.18,18,098.60 / – (अठारह लाख अठारह हजार अट्टानबे रुपये और साठ पैसे मात्र) (31.03.2022 तक के ब्याज सहित) एवं आगे का ब्याज,व्यय और अन्य खर्च, उस पर पूर्ण भगतान तक माइनस रिकवरी को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उक्त नोटिस की तिथि से/ उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भीतर उक्त राशि का पुनर्भगतान

उधारकर्ता / गारंटर राशि का भगतान करने में विफल रहे है, अतः उधारकर्ता / गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 जलाई 2022 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत

उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता / गारंटरों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता और आम जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन पंजाब नेशनल बैंक, बीओः स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली को रु.18,18,098.60 / – (अठारह लाख अठारह हजार अट्ठानबे रुपये और साठ पैसे मात्र) (31.03.2022 तक के ब्याज सहित) एवं आगे का ब्याज,व्यय और अन्य खर्च, पूर्ण भूगतान तक उस पर माइनस रिकवरी के प्रभार के अधीन होगा।

अचल संपत्ति / सम्पत्तियों का विवरण

1) आईपी का ईएमः ग्राम महिपालपुर, दिल्ली–110067 स्थित प्लॉट नंबर 20, खसरा नंबर 523 पर निर्मित 135.33 वर्ग गज क्षेत्र के आवासीय घर 3 मंजिला, भूतल, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल,

चौहद्दी : पूर्वः श्री सूरज भान का मकान , पश्चिमः गली, उत्तरः श्री रणधीर का मकान, दक्षिणः श्री श्रीपाल का मकान,

दिनांकः 27.07.2022 स्थानः दिल्ली अधिकृत अधिकारी / मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक

Piramal
Capital & Housing Finance

पंजाब नैशनल बैंक

पारामल कीपटल एण्ड हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड (पूर्व की देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) सीआईएन : L65910MH1984PLC032639

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 601, 6ठी मंजिल, पीरामल अमिती बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉरपोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम) मुंबई-400070, दूरभाष : +91 22 3802 4000 **शाखा कार्यालय**: पीसीएचएफएल, प्लॉट नंबर 6, ब्लॉक-ए, 2सरा तल, सेक्टर-2, नोएडा-201301

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8-(1) तथा परिशिष्ट IV के अनुसार अचल सम्पत्ति हेतु

(पूर्व का देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी की मांग सुचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारक (कों). गारन्टर (रों) उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर ब्याज के साथ नीचे वर्णित राशि के लिए पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के चार्ज के अधीन होगा।

कर्जदार( रों )/जमानती( यों )	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना की	कब्जा करने
के नाम	का विवरण	तिथि तथा राशि	की तिथि
00006228- अमनदीप (कर्जदार)- और	आवासीय गृह संपत्ति, जी+1 खसरा नंबर 1203, बाला जी मंदिर कैथल के	26-फर22	26-जुलाई-22
महिंद्रा (सह-कर्जदार)	पास, गांव पबनवा ढांड कैथल हरियाणाः -136027	रु. 427,541.00	
00005725– मोहन लाल (कर्जदार)– और	ग्राम बालू तहसील कलायत, खतौनी नं. 816 एस.वी.एम. स्कूल खेवत नं.	22-नव21	25-जुलाई-22
कपूर सिंह (सह–कर्जदार)	731 तहसील- कलायत कलायत कैथल हरियाणाः-136027	रु. 784,976.00	
00005190- गुरमेल सिंह (कर्जदार)- और	ग्राम व पोस्ट उझाना, कैथल, देवड़ा रोड आवासीय गृह संपत्ति सरकारी	30-अप्रैल-19	25-जुलाई-22
बलिया राम (सह-कर्जदार)	स्कूल के पास, कैथल, कैथल-136027	रु. 840,719.00	
00005536- गुरमीत सिंह (कर्जदार)- और नीलम एन (सह-कर्जदार)	उज्जला पट्टी, खेवत नं. 80 मिन ग्राम रामगढ़ खतौनी नं. 194 मिन शासकीय माध्यमिक विद्यालय कैथल के पास, चौशाला रोड कैथल हरियाणाः–136117	24-अगस्त-21 रु. 2,136,813.00	25-जुलाई-22
00005571- जोगिंदर सिंह (कर्जदार)- और	किला नंबर 276/9/2 का हिस्सा, आबादी विष्णु नगर, गोहाना, गली नंबर	18-दिस21	25-जुलाई-22
ममता (सह-कर्जदार)	6, धर्मशाला के पास गोहाना सोनीपत हरियाणाः-131301	रु. 1,382,770.00	
00005365- अजीत कुमार (कर्जदार)- और	खेवत नं. 5061 खाता नं. 6043 किला नं. नया वार्ड नं. 13, गोहाना,	18-दिस21	25-जुलाई-22
सुनीता सैनी (सह-कर्जदार)	सोनीपत हनुमान अखाड़ा गोहाना के पास सोनीपत हरियाणाः-131301	रु. 1,172,789.00	
00004565- कुलदीप पुत्र रामदिया	सैनीपुरा गोहाना, तहसील गोहाना नियर मुहम्मदपुर रोड खेवत नं. 2721	28-फर22	25-जुलाई-22
(कर्जदार)- और रत्नी देवी (सह-कर्जदार)	खाता नं. 3319 सोनीपत सोनीपत हरियाणा:-131301	रु. 2,022,820.00	
00002858- देवेंद्र सहराया (कर्जदार)- और	किला नं. 234//20,1490=160-9/6-7,10-2, खेवट नं. 3701/3496,	28-फर22	25-जुलाई-22
निर्मला देवी (सह-कर्जदार)	खाता नंबर 4250 वार्ड नंबर 1 गोहाना सोनीपत हरियाणाः-131301	रु. 3,049,347.00	
00006453- सुरेंद्र (कर्जदार)- और दीपिका	#िकला नं. 291//23, 301/3,4, वार्ड नं. 1 कबीर बस्ती, गोहाना, सोनीपत	26-फर22	25-जुलाई-22
(सह-कर्जदार)	देव आहा मिल थस्का रोड के पास गोहाना सोनीपत हरियाणा:-131301	रु. 1,007,908.00	
00005323-संदीप कुमार (कर्जदार)- और	खेवत नंबर 79 मिन खाता नंबर 82 मिन बलराज नगर, गुढ़ा, महम रोड	28-फर22	25-जुलाई-22
दीपिका डी (सह-कर्जदार)	गोहाना जेकेआर स्कूल के पास सोनीपत सोनीपत हरियाणाः –131301	रु. 1,893,005.00	
00005854– खुशी राम (कर्जदार)– और सुमन (सह–कर्जदार)	#िकला नं. 271//23/2,288//3,7/3,8,13,14 बलराज नगर, गोहाना, सोनीपत जेकेआर स्कूल के पास, गोहाना सोनीपत सोनीपत हरियाणा:– 131301	28-फर22 रु. 1,270,878.00	25-जुलाई-22
00003215– सुनील कुमार (कर्जदार)– और	खेवत नं. 721/675, खाता नं. 784 किला नं. 291//0, निकट कोपरेटिव	24-सित21	25-जुलाई-22
मुकेश (सह–कर्जदार)	बैंक, ग्राम व पोस्ट रुखी, गोहाना सोनीपत हरियाणाः–131301	रु. 2,143,898.00	
1532418– मान सिंह (कर्जदार) – और सोनिया देवी (सह–कर्जदार)	खेवत नं. 02 मिनट, खघाटौनी नं. 10 मिन गांव सोहू माजरा. तहसील ढांड, जिला कैथल हरिजन चूपर के पास गांव सोलू कैथल कैथल हरियाणाः – 136027	28-फर22 रु. 1,945,127.00	26-जुलाई-22
स्थान : दिल्ली तिथि : 30.07.2022	। (अधिकृत प्राधिकारी) पीरामल कै पूर्व की देवन	पटल एण्ड हाउसिंग प हाउसिंग फाइनेंस कॉर्	

# ऋण वसूली अधिकरण - II, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय

तीसरी मंजिल, भिखुभाई चेम्बर्स, कोचरब आश्रम के पास, पालड़ी, अहमदाबाद, गुजरात

फोर्म नं. 22 ( पूर्ववर्ती 62 ) डीआरटी अधिनियम 2015 के अधिनियम 36 और 37 ] [ देखें आयकर धारा, 1961 की द्वितीय सुचि के नियम 52 ( 1 ) ( 2 ) ] को बैंक और वित्तीय संस्थाओं की ऋण वसूली धारा, 1993 के साथ पढ़ते हुए

ई-निलामी /बिक्री नोटिस रजि. एडी. /दस्ती/चिपकाकर/बीट ऑफ इम/प्रकाशन के द्वारा

आरपी /आरसी नं. 114/2019 ओए नं. 454/2017

सर्टिफिकेट धारक बैंक - स्टेट बैंक ओफ इंडिया

सर्टिफिकेट ऋणी - मे. सिद्धि विनायक लोजिस्टिक्स लि. और अन्य

सी.डी नं. 1 मे. सिद्धि विनायक लोजिस्टिक्स लि. लिक्किटर - श्री दुष्यंत दवे के द्वारा - 1181, दलामल टावर, बी विंग, फी प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमान पोइंट, मंबर्ड - 400 021 ।

सी.डी नं. 2 श्री राजक्मार बैद सी.डी नं. 3 श्रीमती लक्ष्मीदेवी बैद

सी.डी नं. 2 और 3 रिहायशी : फ्लेट नं. 1001/1002, संस्कृत एपार्टमेन्ट, राजहंस सिनेमा के पास, सुरत - 395 001।

सी.डी नं. 4 श्री दीपक क्मार बैद - फ्लेट नं. एफ-501, 5 वी मंजिल, साइ रेसिडन्स, सेक्टर 15, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई- 400 614।

सी.डी नं. 5 श्री रूपचंद थैद - फ्लेट नं. 1002, ए-1 संस्कृत एस्टेट, इमस रोड, पीपलोद, सुरत-395007। सी.डी नं. ६ स्व. रवि कुमार कोठारी के वारिस और कानूनी प्रतिनिधि , श्रीमती गुलाबदेवी कोठारी ( मृतक की माता ) - इष्लैक्स रो हाउस नं. 16 , सी /एस

पावन होस्पिटल के सामने, सोमातने फाटा, ता. मावल, पुणे शहेर। सी.डी नं. 7 श्रीमती मंजुदेवी बैद, फ्लेट नं. 1001/1002, संस्कृत एपार्टमेन्ट, राजहंस सिनेमा के पास, सुरत - 395 001।

सी.डी नं. 8 श्री कमल बैद, फ्लेट नं. 1114, आशीर्बाद पार्क, एफ सिटीलाइट रोड, अलधान, सुरत- 395 007। सी.डी नं. 9 यशकृति दुर्स एन्ड ट्रावेल्स प्रा. लि. - एचई-1, आशीर्वाद कोम्प्लेक्स, ट्रान्सपोर्ट नगर, जयपुर।

सी.डी नं. 10 राज इन्टरनेशनल - प्लोट नं. 14-15, भाटपोर जी.आई.डी.सी., ओ.एन.जी.सी. गेट नं. 2 के सामने, हजीरा, सुरत।

सी.डी नं.11 राजकमल लोजिस्टिक्स प्रा. लि. - प्लोट नं.14-15, भाटपोर जी.आई.डी.सी., ओ.एन.जी.सी. गेट नं.2 के सामने, हजीरा, सरत ।

सी.डी नं. 12 प्रेक्षा लोजिस्टिक्स प्रा. लि. -ए-401, शिवस्मृति टावर, एल.बी. पार्क के पास, घोड़दौड़ रोड, सुरत। सी.डी नं. 13 साई एन्टरप्राइजेस - फ्लोट नं. 14-15, भाटपोर जी.आई.डी.सी., ओ.एन.जी.सी. गेट नं. 2 के सामने , हजीरा , सुरत ।

सी.डी नं. 14 राज ओटोमोबाइल्स, फ्लोट नं. 14-15, भाटपोर जी.आई.डी.सी., ओ.एन.जी.सी. गेट नं. 2 के सामने , हजीरा , सुरत । सी.डी नं. 15 एक्युमेन ईन्फ्रास्ट्क्चर प्रा.लि. - 31, 2 री मंजिल, फंक्शनल इन्डस्ट्यल एस्टेट, पटपरगंज, नई दिखी पूर्व, दिखी-110 092।

सी.डी नं. 16 स्टर्लिंग मर्चंट प्रा. लि. 10/3, काशीनाथ मुलिक लेन, कोलकाता.

उपरोक्त सी.डी. नं. 2-16, दि. 24/10/2019 को ओ.ए. नं. 454/2017 में किए गए फैसले और आदेश की शर्तों के अनुसार , दि. 11/06/2018 तक की बकाया राशि क. 261,59,63,068.09 ( शब्दों में कपये दो सी एकसठ करोड उनसाठ लाख तिरसठ हजार अडसठ और पैसे नी पूरे ) सुद समेत का भुगतान करने में असफल रहे हैं । दि. 15.07.2022 के मेरे आदेश के अनुसार नीचे बताई गई संपत्ति सार्वजनिक ई-नीलामी से उपरोक्त विषय में बेची जायेगी । नीलामी विक्री ओनलाइन ई-नीलामी के द्वारा बेची जायेगी । वेबसाइट: https://www.drt.auctiontiger.net.

संपत्ति का विवरण	रिज़र्व किमत ( राउन्डेड ओफ )	ईएमडी १०% या ( राउन्डेड ओफ )
लॉट नं. 1:- सूरत-डुमस रोड , पीपलोद , ता. सूरत शहर , जि. सूरत में आईबीपी पेट्रोल पंप के पीछे , बिग बज़ार के सामने , अनमोल रेसिडन्सी के पास स्थित रेबन्यू सर्वे नं. 72 धारक , टीपी स्कीम नं. 6 , फाइनल फ्लोट नं. 09 पैकी फ्लोट नं. 30 धारक विस्तार लगभग 498.62 चौ.मीटर जमीन के सभी हक और हिस्से सहित ।		रू. 67.50 লাঞ্জ

नोट \* : कोई दावा यदि आता है, तो भुगतान का अग्रक्रम आरडीबी कानून, 1993 ( वर्ष 2016 में सुधारा गया वैसा ) की संहिता 31-बी की शर्तों के अनुसार

ईएमडी आरटीजीएस/नेपट द्वारा नीचे दी गई सृचि के अनुसार दिये खाते में नीचे के विवरण के अनुसार जमा करवानी होगी :

लाभार्थी बैंक का नाम और पता	स्टेट बैंक ओफ इण्डिया, कमर्शियल शाखा, अहमदाबाद
लाभार्थी खाते का नाम	एसबीआइ एसएएमबी अहमदाबाद रीकवरी एकाउन्ट
खाता नंबर	31666015329
आइएफएससी कोड नं.	SBIN0006926

बोली में वृद्धि लोट 1 के लिए रू. 5,00,000/- रहेगी।

2) इच्छ्क बोलीदार सर्विस प्रोव्हायडर मे. ई-प्रोक्युअरमेन्ट टेक्नोलोजिस लि. (टे. हेल्प लाइन नं. 9265562821-079 61200594/598/568/587/538 ) और श्री. राम शर्मा (मो. 09978591888 ) हेल्पलाइन ई-मेइल आइडीज : support@auctiontiger.net से ओनलाइन प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं और संपत्ति के संबंधित पुछताछ के लिए कृपया संपर्क करे श्री नीरज वाघेला ( सहायक महा प्रबंधक ),( मो. नं. 7600042606 ) और श्री इन्द्रजीत सिंह( मेनेजर )( मो. नं. 7490042574 )

 इच्छक बोलीदारों को सलाह दी जाती है कि अपनी बोलियाँ जमा करवाने से पहले बिक्री के विवरणपूर्ण नियमों और शर्तों के और बिक्री प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://www.drt.auctiontiger.net देखें।

4) डच्छक बोलीदारों को सलाह दी जाती है कि 25% राशि ( ईएमडी बाद करके ) हथीड़े के पडते ही / नीलामी पूरी होते ही तुरंत भुगतान अनुसूचि का पालन करें और 75% राशि नीलामी की तारीख़ से दिन 15 में करे और अगर 15 वा दिन रविवार या किसी अन्य छुट्टी का दिन है तो बैंक के तुरंत अगले

कामकाजी दिन को भगतान कर दे। अवधि बढ़ाने की कोई विनती मान्य नहीं होगी।

5) संपत्तियाँ "जहाँ है जैसी है", "जो है वो है"और "जो भी है वो ही है" आधार पर बेची जायेगी और इच्छ्क खरीददारों को यथोचित तरीके से काम करने के लिये सलाह दी जाती है।

नीलामी का समयपत्रक नीचे के अनुसार है:

1	निरीक्षण की तारीख और समय	12.08.2022 सुबह 11.00 से दोपहर 02.00 के दरमियान
2	अर्नेस्ट मनी ( ईएमडी ) और भुगतान के सबूत के साथ दस्तावेज अपलोड करने के साथ बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि	05.09.2022 शाम 05.00 वजे तक
3	ई-नीलामी	07.09.2022 दोपहर 12.00 से 01.30 के दौरान ( ई-नीलामी पूरी होने तक 3 मिनट के ओटो एक्स्टेशन कलम के साथ )

एम के पी कॉलेज शाखा 19 न्यू रोड देहरादून उत्तराखंड—248001

अचल संपत्ति के विक्रयार्थ विक्रय सूचना प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम

2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना एतदुद्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक आधिपत्य यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिमृत ऋणदाता) द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" एवं "वहां जो कुछ भी है" आधार पर निम्नांकित तिथि पर किया जाएगा। यह विक्रय निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) की ओर से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देय-भुग्तेय यहां नीचे अंकितानुसार बकाया देयराशियों की वसूली के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि जमा का भी यहां नीचे अंकन किया गया है:

	एम के पी कालेज शाखा, 19 न्यू रीड देहरादून	
शाखा नाम, पता एवं संपर्क संख्या	रा के ना काराज सावा, 15 जू ते वरत्यू	
CONTROL OF THE STATE OF THE STA	उत्तराखंड—248001 एवं 6390773644	
	0000000 Q4 0590775044	
न्ऋणकर्ता एवं गारंटर∕ शें के नाम	<ol> <li>श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय राम चंदर, मकान संख्या 75/13, हाथी बडकला, न्यू केंट रोड, जनपद देहरादून 248001</li> <li>श्रीमती राधिका पत्नी श्री प्रदीप कुमार, मकान संख्या 75/13, हाथी बडकला, केंट रोड, जनपद देहरादून 248001</li> <li>श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय राम चंदर (मृतक होने के बाद से) मकान संख्या 75/13, हाथी बडकला, न्यू केंट रोड, जनपद देहरादून 248001 (अब निम्न वर्णित उनके विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से अभिवेदित)</li> <li>श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय सावित्री, मकान संख्या 75/13, हाथी बडकला, न्यू केंट रोड,</li> </ol>	राशिः रु. 21,01,542.00 दिनांक 30.11.2020 के अनुसार भावी ब्याज, लागत एवं व्ययों के साथ
संपत्ति:	जनपद देहरादून 248001 (ii) श्रीमती किरण बाला पत्नी श्री अनिल कुमार पुत्री स्वर्गीय श्रीमती सावित्री निवासी रेलवे कॉलोनी, साहरनपुर (उत्तर प्रदेश)	

मकान—भूमि एवं भवन के ईएम के समस्त वह भाग तथा अंश, जिनका अधिमापन 188.19 वर्ग मीटर है और जो नगर निगम संख्या 75, नई संख्या 17 / 14, हार्थ बडकला, ब्लॉक-।। (रविंदरपुरी), परगना केंद्रीय दून, देहरादून-248001 में स्थित हैं, और स्वर्गीय सावित्री देवी से संबंधित हैं और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व- रामलाल का मकान

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 30.08.2022 को मध्याह्न 11.00 बजे से लेकर के अपराहन 03.00 बजे तक (10 मिनट असीमित स्वतः विस्तारों के साथ), आरक्षित मूल्यः रु. 36.56 लाख (रुपए छत्तीस लाख छप्पन हजार मात्र), धरोहर राशि जो जमा की जानी है: रु. 3.66 लाख

पंजीकरण एवं लॉगिन तथा बोलीदान नियमावली के लिए https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp देखें।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://www.ibapi.in तथा https://www.unionbankofindia.co.in//english/TendelViewAllAuction.aspx में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

दिनांकः 26.07.2022 स्थानः देहरादून

प्राधिकृत अधिकारी

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2022

## Aro granite industries Itd. (100% Export Oriented Unit)

CIN: L7489901.1966PLC031510

Regd. Office: 1001, 10th Floor, DLF Yower A. Jasola, New Delhi - 110925 Ph.: 011-41685169. Fax: 011-26941964. Email: investorpressnoe@andrie.com. Website: www.andrie.com.

SI. Ho	1	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	
	Perticulars	30,06,2002	31.03.2022	30.05.2021	
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1	Total Income from operations	4,490.95	22,610.13	5,429.06	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary Items)	41.43	1,077.57	314.75	
2	Not Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional antifor Extraordinary terms)	41,43	1,977.57	314.75	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	17.93	890.59	296.65	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit I (Loss) for the period (Wher Lax) and Other Coreprehensive Income (after tax))	9.25	901.61	299.29	
6	Paid up Equity Share Capital	1.530.00	1,530.00	1,530.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Shoot of the previous year.	18,112.19			
4	Earnings Per Shake (of Rs. 101-each) (for continuing and discontinued operators)—  1. Basic  2. Disted:	0.05 0.06	5.89 5.89	1.96	

The above is an extract of the detailed format of Quarterly (Annual Financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial results is available on the wobsites of the Stock Exchange(s), www.tseindia.com, and www.tseindia.com and the Company's website For & on behalf of the Board

Sarál Kumar Arora

Managing Director

DIM: 00150668

Place: HOSUR Date: 29.07.2622



RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector -3, Rohini, Delhi - 110085. Phones: 91-11-46800600, 46800700. Fax No: 91-11-46800692, E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com CIN No:- L74899DL1984PLC019097

# 38वीं वार्षिक आम बैठक, ई—मतदान एवं बुक क्लोज़र की सूचना

एतद्द्वारा सृचित किया जाता है कि रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 25 अगस्त, 2022 को प्रातः 10:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फरेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") से होगी, जिसका कि उद्देश्य कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सभी लागू प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 मई, 2022 के सामान्य परिपत्र सं. 3 / 2022 के साथ पर्वित, 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र सं. 2 / 2021 के साथ पठित, 13 जनवरी, 2021 के सामान्य परिपत्र सं. 20 / 2020 के साथ पठित, 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र सं. 17 / 2020 के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र सं. 14 / 2020 के साथ पठित और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("एसईबीआई") द्वारा जारी विनांक 13 मई 2022 के सामान्य परिपन्न सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, दिनांक 15 जनवरी 2021 के सामान्य परिपन्न सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (सामृहिक रूप से ''परिपत्रों'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में जारी 11 मई, 2022 दिनांकित सुचना में उल्लिखित कार्यों के निष्पादन करना है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 28 जुलाई, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स / कम्पनी के रजिस्ट्रॉर और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ("केफिन") में पंजीकृत है। एजीएम सूचना की वास्तविक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता में अधिकारियों ने उपरोक्त परिपन्नों के माध्यम से छूट दे दी है। उपरोक्त डॉक्युमेंट कम्पनी की वेबसाइट www.relaxofootwear.com और स्टॉक एक्सचेंजों, यानी, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में 38वीं एजीएम आहुत करने की सूचना के साथ, वित्त वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट में अन्य विषयों के साथ

एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेंड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, कथित अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से एजीएम में उपस्थित (सदस्यों के लॉगिन के माध्यम से) सदस्यों की गणना की जाएगी। चूँकि एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से होगा इसलिए प्रॉक्सी की सुविधा नहीं उपलब्ध होगी।

सदस्य अपने ई-मतदान लॉगइन क्रेडेंशियल्स के इस्तेमाल के द्वारा https://emeetings.KFintech.com पर वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया से बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद तक

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") भारत के कंपनी सचिवों और सेबी (सुचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") के विनियम 44 के उपरोक्त परिपत्रों के साथ, कंपनी अपने सदस्यों को व्यवसायों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम की सूचना में निर्धारित । इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम ("इस्टापोल") में भी उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य इंस्टापोल के माध्यम से एजीएम में मतदान कर सकेंगे। कंपनी ने एजीएम के लिए रिमोट ई-बोटिंग और इंस्टापोल सुविधाएं प्रदान करने के लिए केफिन की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग / इंस्टापोल के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम, दिनांक 11 मई, 2022 के नोटिस में दिए गए हैं।

सदस्यों से निवेदन है कि निम्नलिखित का ध्यान में रखें:

तिथिः जुलाई 29, 2022

स्थानः दिल्ली

ऋण वसुली अधिकरण- ॥, अहमदाबाद

क) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 22 अगस्त, 2022 के प्रात: 9 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी और बुधवार, 24 अगस्त, 2022 की शाम 5 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद केफिन मतदान के ई–वोटिंग मोंड्यूल को बंद कर देंगी और कथित तिथि और समय के बाद सदस्यों को इलेक्ट्रोंनिक माध्यम से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों को किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यों को वीरवार 18 अगस्त, 2022 ("कट-ऑफ तिथि") को कम्पनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में

- मताधिकार (रिमोट ई—वोटिंग / इंस्टापोल माध्यम से) उपलब्ध होंगे । कट—ऑफ तिथि में जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर या लाम के हकदार लोगों के लिए तैयार केफिन / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रजिस्टर में दर्ज होगा, उसे एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग या इंस्टापोल, जैसी भी रिथति हो, उससे मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। कट—ऑफ की तिथि, यानी, वीरवार 18 अगस्त, 2022 को जो भी व्यक्त सदस्य नहीं होंगे, उनके लिए एजीएम का यह नोटिस केवल सूधनार्थ है।
- कोई भी व्यक्ति, जोकि सूचना भेजने के बाद कम्पनी के शेयर लेता है और कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि, अर्थात, वीरवार 18 अगस्त, 2022 को शेयरधारक है evoting@klintech.com पर निवेदन कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है या दूरभाष सं. 040-6716 2222 संपर्क या केफिन के टॉल फ्री नं. 1800-3454-001 या कम्पनी से cs@relaxofootwear.com पर संपर्के कर सकता है। एजीएम की 11 मई, 2022 दिनांकित सूचना में भी यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख है। हालाँकि, यदि कोई सदस्य पहले से ही रिमोट ई-बोटिंग के लिए केफिन में पंजीकृत है तो वह अपने मौजूदा लॉगइन आईडी और पासवर्ड से लोगिन कर सकता / सकती है।
- कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग, अर्थात, इंस्टापोल की सुविधा देगी, जोकि वीसी / ओवीएएम प्लेटफॉर्म का एकीकृत हिस्सा है और इसके लिए किसी अलग लॉगइन की आवश्यकता नहीं है। इंस्टापोल से मतदान करने की सुविधा वीडियो कॉन्फरेंसिंग स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में इंस्टापोल की घोषणा होते ही इसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा।
- कोई सदस्य केवल एक माध्यम, अर्थात, रिमोट ई-वोटिंग या इंस्टापोल के द्वारा मतदान कर सकता है। यदि कोई सदस्य दोनों माध्यमों से मतदान करता है तो रिमोट ई–वोटिंग से किया गया मतदान मान्य होगा और इंस्टापोल को अमान्य करार दिया जाएगा। रिमोट ई—वीटिंग से मतदान करने वाले सदस्य भी बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
- सदस्यों से निवेदन है कि वे अपना ई-मेल पता इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंट्स) के पास और वास्तविक शेयरों की रिव्यति में https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर विलक कर पंजीकृत करें या RTA को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ फॉर्म ISR 1 की भौतिक प्रति निम्नलिखित पते पर भेजें, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, युनिट रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31—32, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद —500032 (इण्डिया), या ई मेल करें einward.ris@kfintech.com
- छ) सदस्य, जोकि एजीएम के दौरान अपने विचार रखने या प्रश्न पूछने के इच्छक है, https://emeetings.Kfintech.com पर लॉगइन कर अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉग इन करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध "स्पीकर रजिस्ट्रेशन" के विकल्प पर विलक करें। स्पीकर रजिस्ट्रेशन शनिवार 20 अगस्त, 2022 (प्रात: 9 बजे आईएसटी) से सोमवार 22 अगस्त, 2022 (शाम 5 बजे आईएसटी) तक खुला रहेगा । स्पीकर के रूप में खुद को पंजीकृत करने वाले सदस्य मात्र एजीएम के दौरान अपने विचार रख सकते या प्रश्न पूछ सकते हैं। कम्पनी को एजीएम के सचारू संचालन के लिए उपयक्त समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नों की संख्या और स्पीकरों की संख्या सीमित रखने का

रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया की निगरानी और निष्पक्ष और पारदर्शी इंस्टापोल सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, श्री. बलदेव सिंह काश्तवाल (FCS No. 3616, C. P. No. 3169) को स्कुटनाइज़र नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में इंस्टापोल के परिणाम एजीएम के समापन के बाद दो कार्य दिवस में घोषित कर दिए जाएंगे। मतदान के परिणाम समेत स्कृटनाइजर की रिपोर्ट की घोषणा प्रबंध निदेशक या बोर्ड से विधिवत अधिकृत कम्पनी के किसी अन्य निदेशक / व्यक्ति द्वारा सोमवार 29 अगस्त, 2022 या उससे पहले पंजीकृत कार्यालय में की जाएगी और इनका प्रकाशन कम्पनी की वेबसाइट www.relaxofootwear.com और स्टॉक एक्सचेंजों, यानी, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने संबंधी किसी शिकायत/प्रश्न/स्पष्टीकरण हेत सदस्य शेयरघारकों के लिए उपलब्ध सहायता एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और 'ई-वोटिंग/वीसी/ओएवीएम यूजर मैन्युअल देख सकते हैं, जोकि https://evoting.kfintech.com से डानलोड कर सकते हैं और / या अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं - श्री. राजकुमार काले, प्रबंधक – कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, यूनिटः रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाछीबावली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुँडा, हैदराबाद - 500 032 या दूरभाष सं. 040-6716 2222 या केफिन को टॉल फ्री नं. 1800-3454-001 पर कॉल करें। कम्पनी के सदस्य श्री, विकास कमार टाक, कम्पनी सचिव, रिलैक्सो फटवेयर्स लिमिटेड, अग्रवाल सिटी रक्वेयर, प्लॉट नं. 10, मंगलम प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर-3, रोहिंगी, दिल्ली-110085, दूरभाष संख्या 011-46800600 से संपर्क कर सकते हैं और cs@relaxofootwear.com पर ई—मेल लिख सकते हैं।

बुक क्लोजर: यह भी सुचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित उसके तहत बने नियमों और लिस्टिंग रेगुलेशन केँ रेगुलेशन 42 के अनुसार, 38वीं एजीएम और सदस्यों द्वारा घोषित वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लामांश का भुगतान (यदि कोई हो तो) के उद्देश्य से सदस्यों का रंजिस्टर और कम्पनी के शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 से बुधवार, 24 अगस्त, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृतं रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड

इस्ता./-

विकास कुमार टाक कम्पनी सचिव

नई दिल्ली

# अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 29 जुलाई।

केंद्र सरकार द्वारा 2015 में अपनाई गई वन रैंक-वन पेंशन नीति को बरकरार रखने के अपने फैसले के संबंध में दायर की गई पनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि इस फैसले में न तो कोई संवैधानिक कमी है और न ही यह मनमाना है। पीठ ने बेदम बताते हुए पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा- पुनर्विचार याचिका को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज किया जाता है। हमने पुनर्विचार याचिका और इससे जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से देखा है। हमें याचिका में कोई दम नहीं दिखा और उसी के अनुसार इसे खारिज किया जाता है। यह पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट के 16 मार्च के फैसले के संबंध में दायर की गई थी।

# CAPITAL

# PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

पंजीकृत कार्यालयः इण्डियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362266 शाखा कार्यालयः आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड, इंटरनेशनल बिजनेस सेन्टर, 2रा तल प्लॉट नं. के-14-ए-बी,सी अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001

1. एबीएचएफएल:, प्राधिकृत अधिकारी: श्री देवेन्द्र राठौर, सम्पर्क नं. 9829222694 तथा श्री अमित भारद्वाज : सम्पर्क नं.-91 9784494448 2. नीलामी सेवा प्रदाता (एएसीपी) मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड-ऑक्शन टाइगर, श्री राम शर्मा: सम्पर्क नं.: +91 8000023297

## अचल सम्पात्तया का बिक्रा क लिय बिक्रा सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी सूचना एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गांरटरों को सुचित किया जाता है कि प्रतिभृति क्रेडीटर के पास गिरवी चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड/प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है की अधोलिखित ऋणधारकों तथा गारंटरें नाम सुरेश पंवार तथा संगीता भूरी देवी से आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड/प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये 14.03.2022 को आईएनआर 38,39,356.92 (रुपये अड़तीस लाख उन्तालिस हजार तीन सौ छप्पन एवं पैसे बानवे मात्र) तथा वसूली की तिथि तक उस पर आगे के ब्याज तथ अन्य खर्चे की वसुली के लिये 2.9.2022 को "जैसा है जहां है" "जो भी है जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मुल्य रु. 58,52,000/- (रुपये अन्टावन लाख इक्यावन हजार मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) रु. 5,85100/- (रु. पांच लाख पचासी हजार एक सौ मात्र) होगी। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 01.09.2022 के 5.00 बजे अप. तक है। सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि 31.08.2022 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप-तक है।

### अचल सम्पत्ति का विवरण दक्षिणा भाग का हिस्सा, पट्टा न. 179/48-49, ामस्सल न. 57/45-46, एरिया 960 वर्ग फाट, पा

राजस्थान में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड/ प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईटः https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-forauction-under-sarfaesi-act अथवा https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें। हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड तिथि: 30.07.2022

punjab national bank पंजाब नैशनल बैंक मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद, केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद - 201001, ई-मेलः cs8228@pnb.co.in

# कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

त्वकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन **पंजाब नेशनल बैंक, शाखाः वसुंघरा (471800)** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(2) के नियम 3 के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत **मैसर्स विद्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., इसके** निदेशकों श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार गौतम के माध्यम से, गारंटर: श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार गौतम, श्री ओम प्रकाश शर्मा (स्वर्गीय शांति देवी के कानूनी उत्तराधिकारी), श्री ओम प्रकाश शर्मा और श्री कृष्ण गोपाल शर्मा को एक मांग नोटिस दिनांक 05.05.2022 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 3,46,41,306.78 (रु. तीन करोड छियालीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ छः और पैसे अट्टहत्तर मात्र) और भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूबना की प्राप्ति की तिथि / नोटिस की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/सह-कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 उक्त नियमों के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा 28.07.2022 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसाधारण को एतदहारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन, **पंजाब नेशनल** बैंक, शाखा : वसुंधरा (471800) के प्रभार वास्ते राशि रु. 3,46,41,306.78 (रु. तीन करोड छियालीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ छः और पैसे अट्टहत्तर मात्र) और भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदार / बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता

# चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

(१) विस्तारित प्रभारित सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आईपी मकान नं. 14ए / 647, सैक्टर-14ए, वसुंधरा, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 288 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री कृष्णा गोपाल शर्मा के नाम पर है। थौहदी : पूरव में - 7.5 मी, थौडी रोड, पश्चिम में - प्लॉट न 14-ए/640, उत्तर में - प्लॉट नं. 14-ए/648, दक्षिण में - प्लॉट नं. 14-ए/648

(2) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आईपी ए-86, ब्लॉक-ए, लोहिया नगर, गाजियाबाद, यू.पी. में रिधत, क्षेत्रफल 323.33 वर्ग गज, चौहदी : पुरव में – अन्य का मकान, पश्चिम में – मकान नं, ए–85, उत्तर में – 30'00" बौडी रोड, दक्षिण में – 30'0" बौडी सर्विस

दिनांक : 28.07.2022, स्थान : गाजियाबाद

## [नियम-8(1)] कब्ज़े की सूचना जबिक, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

स्रक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत डीबीएस बैंक इन्डिया लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और सुरक्षा हित के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने दिनांक 03/01/2019 को डिमांड नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ताओं को अरिनिट्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और रितेष चोपरा (बंधनकर्ता और संपत्ति के मालिक) को नोटिस में उल्लिखित राशि रु। 5,81,34,160.42 (पांच करोड़ इक्यासी लाख चौंतीस हजार एक सौ साठ और बयालीस पैसे मात्र) ब्याज सहित, जैसा कि नोटिस में उल्लेख किया गया है, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए बोला गया था।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं/संपत्ति के मालिकों और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस 25 जुलाई, 2022 को उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा के तहत नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से संपत्ति के मालिक और आम जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है

कि वे उक्त संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन डीबीएस बैंक इन्डिया लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। 24/12/2018 को 5,81,34,160.42 और उस पर ब्याज, लागत आदि।

"उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, स्रक्षित संपत्तियों को भूनाने के लिए आमंत्रित किया

### अचल संपत्ति का विवरण पुरी दूसरी मंजिल पर स्थित संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल और साथ ही दूसरी

मंजिल के ठीक ऊपर की पूरी एक्सक्लूसिव टैरेस (पूरी दूसरी मंजिल, पूरी तीसरी मंजिल और उसके ऊपर की छत पर किसी भी बकाया / मंजिल के निर्माण और स्वामित्व के अधिकार के साथ) और उसके बाद आकाश की सीमा तक) ब्लॉक नंबर डी (डी - 8 के रूप में जाना जाता है) में प्लॉट नंबर - 8 पर निर्मित, मस्जिद मोठ आवासीय योजना, कॉलोनी जिसे पंचशील एन्क्लेव के रूप में जाना जाता है, की लेआउट योजना में 260 वर्ग गज की दूरी पर स्थित है। चिराग दिल्ली राजस्व एस्टेट, नई दिल्ली में। से घिरा:-

अधिकृत अधिकारी

डीबीएस बैंक इन्डिया लिमिटेड

उत्तर दवार में: प्लोट नं. 48 दक्षिण दवार में: रोड 18 मी. पूर्व द्वार में: प्लोट नं. डी - 9 पश्चिम दवार में: प्लोट नं. डी - 7

दिनांक : 25/07/2022 जगह: नई दिल्ली